

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 मार्च 2020—फाल्गुन 17, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2020

क्र. बी-16-02-2020-चौदह-2.—मध्यप्रदेश में रबी मौसम वर्ष 2019-20 में प्राइस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत फसल चना एवं मसूर उपज का प्रदेश के समस्त जिलों में समर्थन मूल्य में कृषकों द्वारा उत्पादित उपज का उचित दर प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है.

मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 मौसम रबी के लिये संलग्न परिशिष्ट अनुसार फसल चना एवं मसूर का वार्षिक कैलेंडर परिभाषित घोषित किया जाता है.

संलग्न:—उपरोक्तानुसार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट—1

मध्यप्रदेश में रबी वर्ष 2019-20 के लिये प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत निम्नांकित फसलों की बुवाई, कटाई एवं खरीदी के लिये वार्षिक कैलेंडर की सूची

क्र.	फसल का नाम	बोआई का समय	कटाई का समय	सर्वाधिक मण्डी में आवक समय	प्रस्तावित खरीदी समय (पी.एस.एस.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चना	अक्टूबर मध्य से दिसम्बर तक.	फरवरी से मार्च तक	05 अप्रैल से 30 जून तक	25 मार्च से 24 जून 2020 तक.
2	मसूर	सितम्बर मध्य से नवम्बर तक.	फरवरी से मार्च तक	05 अप्रैल से 30 जून तक.	25 मार्च से 24 जून 2020 तक.